



जनसम्पर्क कार्यालय: एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

## समाचार

# पावर ट्रांसमिशन कंपनी में उत्कृष्ट कार्य सम्मान समारोह में 44 अभियंता व कार्मिक पुरस्कृत



जबलपुर, 6 अक्टूबर। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 220 नयागांव सब स्टेशन में आज उत्कृष्ट कार्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक श्री पी. ए. आर. बेन्डे ने भव्य समारोह में पूरे प्रदेश में कार्यरत 44 अभियंताओं व कार्मिकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति प्रदान किए। श्री बेन्डे ने इस अवसर पर कहा कि पुरस्कृत अभियंताओं व कार्मिकों ने विपरीत परिस्थिति में कार्य कर लक्ष्यों को अर्जित किया है और उनका योगदान अप्रतिम है। श्री बेन्डे ने कहा कि भविष्य में नए संवर्ग विकसित कर उसके अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में कार्मिकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस समारोह में पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता टेस्टिंग व कम्युनिकेशन श्री डी. सी. जैन, मुख्य अभियंता कार्पोरेट अफेयर्स श्री एफ. डी. ठाकुर, मुख्य अभियंता अति उच्चदाब मेंटेनेंस एन्ड इंस्पेक्शन श्री एम. के. नुन्हारिया, मुख्य अभियंता अति उच्चदाब निर्माण श्री सुनील तिवारी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्लानिंग एन्ड डिजाइनिंग श्री राजकिशोर खंडेलवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री मुकुल मल्होत्रा सहित बड़ी संख्या में अभियंता व कार्मिक उपस्थित थे।

**ग्रिड एनालिसिस का हो रहा महत्वपूर्ण कार्य-**पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक श्री बेन्डे ने कहा कि स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर व ट्रांसमिशन कंपनी के अभियंताओं द्वारा कंपनी के ग्रिड एनालिसिस का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में स्थापित यूआरटीडीएसएम प्रणाली के माध्यम से कंपनी के अभियंताओं को प्रशिक्षित करने के लिए पावर सिस्टम आपरेशन कार्पोरेशन (पोसोको) के सहयोग से एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन अक्टूबर माह में किया जाएगा।

**कार्मिकों के योगदान से ट्रांसमिशन लॉसेस में लगातार कमी-**श्री बेन्डे ने अभियंताओं व कार्मिकों से आह्वान किया कि सब स्टेशनों एवं ट्रांसमिशन लाइनों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ इन कार्यों को टीम वर्क से निर्धारित समय से पूर्व किया जाए। उन्होंने कंपनी के अभियंताओं व कार्मिकों की सराहना की कि उनके योगदान से ट्रांसमिशन लॉसेस में लगातार कमी आई है।

**पुरस्कृत होने वाले कार्मिक हैं-**रविशंकर अहिरवार, नागेन्द्र लाल, अनिल कुमार पटेल, रामायण प्रसाद तिवारी, मोहम्मद गुफरान खान, दीपक कुमार सेन, रामहित तिवारी, हरीश शिववंशी, अखिलेश गुर्जर, राजीव कुमार जैन, बृजेश शर्मा, नंदकिशोर, रामौतार, वीरेन्द्र चिल्हाटे, ओमप्रकाश हार्डिया, मन्नु भरत, डी. के. पाराशर, विनोद कुमार कश्यप, रवि कुमार सक्सेना, तीरथ विश्वकर्मा, कप्तान सिंह भदौरिया, राहुल काछी, कैलाश कहार, नितेश रंगारे, सुरेन्द्र कुमार पटेल, प्रियदर्शी सोनी, विनोद गालर, अभिषेक गुप्ता, अनिल डाबर, सुनील कनौजिया, श्री लोकेन्द्र खत्री, श्री सूर्यबली सिंह, श्री दिलीप धमन, श्री राकेश बड़गोत्या, श्री निरंजन कुमार परिहार, श्री हिरदेश कुमार ठाकुर, श्री वीरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री भवानी शंकर प्रजापति, श्री पुष्पेन्द्र कुमार पटेल, शैलेन्द्र श्रीवास, विनोद कुमार बघेल, निर्मल कुमार शुक्ला, योगेश जैन, समीर जैना एवं सुश्री अंजली त्रिपाठी।

मुख्य अभियंता कार्पोरेट अफेयर्स श्री एफ. डी. ठाकुर ने कहा कि ट्रांसमिशन कम्पनी की अवार्ड नीति से उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिक अधिक से अधिक संख्या में पुरस्कृत होंगे और इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री रोहित शाह ने और आभार मुख्य अभियंता श्री डी. सी. जैन ने व्यक्त किया।

**समाचार क्रमांक: 457/2017**

**(राकेश पाठक)**

**वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी**